

Unit - 8 - Trend Analysis

(1.) तुलनात्मक आर्थिक चिह्न फंडी का काम करता है :

Comparative balance sheets ~~serve as a link between:~~

- (a.) Two balance sheets at different dates
(विभिन्न तिथियों के दो आर्थिक चिह्नों के बीच)
- (b.) Balance sheet and profit and loss account
(आर्थिक चिह्न व लाभ-हानि खाते के बीच)
- (c.) Two income statements at different dates
(विभिन्न तिथियों के दो आय विवरणों के बीच)

Ans → (b.) आर्थिक चिह्न व लाभ-हानि खाते के बीच

(2.) उत्पादन लागत का तुलनात्मक विवरण प्रकारांतरित है

Comparative statement of production cost attempt to highlight upon

- (a.) Two trend in expenditures on various items
विभिन्न मदों के खर्चों की प्रवृत्ति पर
- (b.) The proportion of a particular cost in total cost
कुछ लागत में एक विशेष लागत के प्रतिशत पर
- (c.) Both (a) & (b) (दोनों (a) तथा (b))

Ans → (c) दोनों (a) तथा (b)

(3.) स्वामी-फंड का तुलनात्मक विवरण बनाया जाता है :

Comparative Statement of proprietary fund is prepared to analyse:

- (a.) The composition of proprietor's fund its use
स्वामी फंड के अंशों व प्रयोग के विश्लेषण हेतु
- (b.) The use of working capital (कार्यशील पूंजी के प्रयोग के विश्लेषण हेतु)
- (c.) The earning capacity of the concern (संस्था की लाभार्जन क्षमता के विश्लेषण हेतु)

Ans → (a) स्वामी फंड के अंशों व प्रयोग के विश्लेषण हेतु

(4.) वित्तीय प्रवृत्ति अनुपात होते हैं: Financial trends are trends ratios based on:

- (a.) Balance sheet information (आर्थिक चिह्नों की सूचना पर आधारित)
- (b.) Profit and Loss account information (लाभ-हानि खाते की सूचना पर आधारित)
- (c.) Both (a) & (b) (दोनों (a) तथा (b))

Ans → (a.) आर्थिक चिह्नों की सूचना पर आधारित

(5.) पूंजी में परिवर्तन का तुलनात्मक विवरण इंगित करता है:

Comparative statement of changes in capital indicates:

- (a.) change in various assets (विभिन्न सम्पत्तियों में परिवर्तन)
- (b.) change in various liabilities (विभिन्न दायित्वों में परिवर्तन)
- (c.) change in both assets and liabilities (सम्पत्तियों व दायित्वों दोनों में परिवर्तन)

Ans → (c) सम्पत्तियों व दायित्वों दोनों में परिवर्तन

Unit-9 → Break-even analysis.

(1) सुरक्षा - उपान्त अन्तर होता है:

Margin of Safety is the difference between:

- (a) Planned sales and actual sales (नियोजित बिक्री व वास्तविक बिक्री में)
- (b) Actual sales and break-even sales (वास्तविक बिक्री व सीमा-स्तर बिंदु बिक्री में)
- (c) Planned sales and planned profit (नियोजित बिक्री व नियोजित लाभ में)

सिध → (b) - वास्तविक बिक्री व सीमा-स्तर बिंदु बिक्री में

(2) विक्रय मूल्य में वृद्धि:

An increase in selling price:

- (a) Increase the break-even point (सीमा-स्तर बिंदु को बढ़ाता है)
- (b) Decrease the break-even point (सीमा-स्तर बिंदु को कम कर देता है)
- (c) Does not affect the break-even point (सीमा-स्तर बिंदु को प्रभावित नहीं करता है)

सिध → (b) - सीमा-स्तर बिंदु को कम कर देता है।

(3) परिवर्तनशील लागत में वृद्धि:

An increase in variable costs:

- (a) Reduces Contribution (दत्तंश को कम कर देता है)
- (b) Increase P/r Ratio (लाभ-भाग अनुपात को बढ़ा देता है)
- (c) Increase the profit (लाभ को बढ़ाता है)

सिध → (a) दत्तंश को कम कर देता है।

(4) यदि स्थिर व्यय कम हो जाता है, जबकि परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई समान रहता है, तो नया सीमा-स्तर बिंदु पुराने सीमा-स्तर बिंदु की तुलना में:

If fixed costs decrease while the variable cost per unit remains constant the new break-even point in relation to the old break even will be:

- (a) Indeterminate (अपरिमित होगा)
- (b) Unchanged (अपरिवर्तित होगा)
- (c) Higher (अधिक)
- (d) Lower (कम रहेगा)

सिध → (d) कम रहेगा

(5) यदि स्थिर व्यय कम हो जाता है, जबकि परिवर्तनशील व्यय प्रति इकाई समान रहता है, तो नया दत्तंश पुराने दत्तंश की तुलना में:

If fixed costs decrease while variable cost per unit remains constant, the new contribution in relation to old contribution will be:

- (a) Indeterminate (अपरिमित होगा)
- (b) Unchanged (अपरिवर्तित होगा)
- (c) Higher (अधिक)
- (d) Lower (कम रहेगा)